

9 सितंबर, 2021

HDSB के प्राथमिक छात्रों के प्रिय परिवार (किंडरगार्टन - ग्रेड 8),

प्राथमिक छात्रों के वह परिवार, जो शिक्षा मॉडल (यानि व्यक्तिगत से दूरस्थ/पूर्ण रूप से ऑनलाइन या दूरस्थ/पूर्ण रूप से ऑनलाइन से व्यक्तिगत) बदलना चाहते हैं, तो उन्हें 12 अक्टूबर को *शिक्षा मॉडल में बदलाव संबंधी फॉर्म* ज़रूर भरना चाहिए। **इस समय यह फॉर्म गुरुवार, 16 सितंबर, रात 11:59 बजे तक खुला है।** यह फॉर्म केवल शिक्षा मॉडल बदलने के इच्छुक परिवारों के लिए है, जो शिक्षा मॉडल बदलना चाहते हैं। **यदि आप शिक्षा मॉडल नहीं बदलना चाहते, तो कृपया यह फॉर्म ना भरें, आपका बच्चा (बच्चे) वर्तमान शिक्षा मॉडल में ही शिक्षा प्राप्त करता रहेगा।**

प्राथमिक छात्रों के परिवारों को फॉर्म भरने से पहले नीचे दी गई जानकारी की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका निवेदन आपके अंतिम फ़ैसले का प्रतिनिधित्व करता है। **यदि आप गुरुवार, 16 सितंबर, रात 11:59 बजे तक *शिक्षा मॉडल में बदलाव संबंधी फॉर्म* नहीं भरते, तो आप शिक्षा मॉडल नहीं बदल पाएंगे।**

यदि आप इसे **व्यक्तिगत से दूरस्थ (पूर्ण रूप से ऑनलाइन) शिक्षा** में बदलना चाहते हैं, तो आपको अनुरोध फॉर्म पर निम्नलिखित **सभी** कथनों को स्वीकार करना होगा:

- मेरे बच्चे को एक ऐसी कक्षा में रखा जा सकता है, जो उसके घर के स्कूल के अन्य छात्रों के साथ नहीं है।
- मेरे बच्चे को दूरस्थ शिक्षा की कक्षा (और व्यक्तिगत शिक्षा के लिए अपने घर के स्कूल में वापस आ जाएगा) सहित दूसरे स्कूल में भेजा जा सकता है।
- मेरे बच्चे का अध्यापक भी बदल जाएगा।
- निर्देश को शिक्षा के साथ श्रेणीबद्ध (जैसे शिक्षा के प्रकार, जिसमें मेरा बच्चा व्यस्त है) नहीं किया जा सकता।
- मेरे बच्चे को स्कूल दिन (किंडरगार्टन के लिए 180 मिनट; ग्रेड 1-8 के लिए 225 मिनट) के दौरान वास्तविक-समय (समसामयिक रूप से) में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऑनलाइन भाग लेना ज़रूरी होगा।
- मेरे बच्चे को वर्तमान परिवहन मार्ग से हटा दिया जाएगा (यदि लागू है)।

Street Address: J.W. Singleton Education Centre • 2050 Guelph Line, Burlington, Ontario L7P 5A8

Mailing Address: J.W. Singleton Education Centre • P.O. Box 5005, Stn. LCD 1, Burlington, Ontario L7R 3Z2

**Phone: 905-335-3663 | 1-877-618-3456 Fax: 905-335-9802**

[www.hdsb.ca](http://www.hdsb.ca)

यदि आप दूरस्थ (पूर्ण रूप से ऑनलाइन) से व्यक्तिगत शिक्षा में बदलना चाहते हैं, तो आपको अनुरोध फॉर्म पर निम्नलिखित कथन स्वीकार करने होंगे:

- ❑ मैं समझता/समझती हूँ कि रोज़ स्कूल पहुंचने से पहले ऑटैरियो सरकार के [COVID-19 School Screening Tool](#) (कोविड-19 स्कूल स्क्रीनिंग टूल) का उपयोग करते हुए, अपने बच्चे के लिए रोज़ स्वयं-जांच पूरी करने की ज़रूरत है।
- ❑ मेरे बच्चे का अध्यापक भी बदल जाएगा।

अब प्राथमिक छात्रों के लिए शिक्षा मॉडल में बदलाव संबंधी फॉर्म भरें: <https://bit.ly/ElemLearningModel>

शिक्षा मॉडल बदलने वाले छात्र मंगलवार, 12 अक्टूबर को अपने चुने हुए मॉडल में बदलाव करेंगे। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह उस तिथि तक अपने वर्तमान शिक्षा मॉडल में पढ़ाई करते रहें।

शैक्षिक फैसलों संबंधी संरक्षण-समझौतों और साझा-निर्णय लेने वाले परिवारों के लिए, यह फैसला दोनों पक्षों की सहमति से ही होना चाहिए। सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बच्चे (बच्चों) के स्कूल से संपर्क करें।

#### अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने बच्चे के स्कूल से संपर्क करें। दो शिक्षा मॉडलों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारी [September 2021 website](#) (सितंबर 2021 वैबसाइट) पर कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) देखें।

हम आपको HDSB वैबसाइट, स्कूलमैसेंजर ईमेल और सोशल मीडिया ([Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#)) द्वारा सूचित करते रहेंगे।